



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7]  
No. 7]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 1979/पीष 14, 1900  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 1979/PAUSA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर विभाग)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1979

सार्वजनिक सूच 1

सं० प्रतिअदायगी/सा०सू० 1/79.—सोमानुसूक्त तथा केन्द्रीय उत्पादन  
शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण,  
दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का०सं०  
602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय  
पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15  
अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन  
करती है:—

उपक्रमांक 2724 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर  
निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

उपक्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
2724	गैस मेटल	
	(1) 200 सी० पी०	273.60 रु० (केवल दो सौ तिहत्तर रुपए और साठ पैसे)

1	2	3
(2)	300 सी०पी०	278.10 रु० (केवल दो सौ अठहत्तर रुपए और दस पैसे)
(3)	400 सी०पी०	309.30 रु० (केवल तीन सौ नौ रुपए और तीस पैसे)
(4)	500 सी०पी०	330.60 रु० (केवल तीन सौ तीस रुपए और साठ पैसे)
(5)	600 सी०पी०	349.60 रु० (केवल तीन सौ उनचास रुपए और साठ पैसे)
(6)	800 सी०पी०	364.80 रु० (केवल तीन सौ चौंसठ रुपए और अस्सी पैसे)
(7)	1000 सी०पी०	364.80 रु० (केवल तीन सौ चौंसठ रुपए और अस्सी पैसे)

प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दरें 4-1-1979 से लागू होंगी।

## MINISTRY OF FINANCE

## Department of Revenue

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 4th January, 1979

## PUBLIC NOTICE

**No. Drawback/PN-1/79.** Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971.

For Sub-serial No. 2724 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl No.	Description of goods	Rate of drawback
2724	GAS MANTLES	
(i)	200 CP	Rs. 273.60 (Rupees Two hundred seventy-three and paise sixty only).
(ii)	300 CP	Rs. 278.10 (Rupees Two hundred seventy-eight and Paise ten only).
(iii)	400 CP	Rs. 309.30 (Rupees Three hundred nine and paise thirty only).
(iv)	500 CP	Rs. 330.60 (Rupees three hundred thirty and Paise sixty only).
(v)	600 CP	Rs. 349.60 (Rupees Three hundred forty-nine and Paise sixty only).
(vi)	800 CP	Rs. 364.80 (Rupees Three hundred sixty-four and Paise eighty only).
(vii)	1000 CP	Rs. 364.80 (Rupees Three hundred sixty-four and Paise eighty only).

The above rates of drawback will be effective from 4-1-1979.

## सार्वजनिक सूचना

**सं० प्रतिश्रदायगी/सां०सू० 2/79**—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिश्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिश्रदायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. 'प्रतिश्रदायगी की दर' कालम में उपक्रमांक 2502 की मद (क) (क) (i), (क) (क) (iii) और मद (ग) (i) (क) के सामने, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

35.10 रु० (केवल पैंतीस रुपए और दस पैसे) प्रति किलोग्राम,  
31.85 रु० (केवल इकतीस रुपए और पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम तथा  
6.05 रु० (केवल छः रुपए और पांच पैसे) प्रति किलोग्राम ।

2. "प्रतिश्रदायगी की दर" कालम में, उपक्रमांक 2503 की मद (ग) (i) (क) (i), (ग) (i) (क) (ii) और (ii) (क) के सामने, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

36.60 रु० (केवल छत्तीस रुपए और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम,  
33.20 रु० (केवल तैंतीस रुपए और बीस पैसे) प्रति किलोग्राम तथा  
6.30 रु० (केवल छः रुपए और तीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1979 के चौथे दिन लागू होगी ।

## PUBLIC NOTICE

**No. Drawback/PN-2/79.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. In the Column 'Rate of Drawback' against items (A)(e) (i), (A)(e)(iii) and item (C)(i)(a) of sub-serial No. 2502 for the existing entries the following shall be substituted namely :—

Rs. 35.10 (Rupees thirty five and paise ten only) per kg.,  
Rs. 31.85 (Rupees thirty one and paise eighty five only) per kg.  
and Rs. 6.05 (Rupees six and paise five only) per kg.

2. In the Column 'Rate of drawback' against items (C)(i) (e)(i), (C)(i)(f)(i) and (C)(ii)(a) of sub-serial No. 2503 for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

Rs. 36.60 (Rupees thirty six and paise sixty only) per kg.,  
Rs. 33.20 (Rupees thirty three and paise twenty only) per kg.  
and Rs. 6.30 (Rupees six and paise thirty only) per kg.

The Public Notice shall come into force on the 4th day of January, 1979.

## सार्वजनिक सूचना

**सं० प्रतिश्रदायगी/सां०सू० 3/79**—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन, शुल्क प्रतिश्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 23 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिश्रदायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3803 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उपक्रम संख्या	माल का विवरण	प्रतिश्रदायगी की दर
---------------	--------------	---------------------

3803	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा तमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 27 के अन्तर्गत निविष्ट वस्तुओं से भिन्न एल्युमीनियम से बनी वस्तुएं :
------	--

1	2	3
(i) एल्युमीनियम की 0.56 मि० मी० तथा 1.22 मि० मी० के बीच की मोटाई की वृत्ताकार तथा अष्टाकार आकृति की वस्तुएं	18-1-79 से लागू 4.70 रु० (केवल चार रुपए और सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्रा०	6-3-79 से लागू 3.83 रु० (केवल तीन रुपए और पचासी पैसे) प्रति कि० ग्रा०
(ii) एल्युमीनियम की वस्तुएं जो शीटो मक्खियों तथा पट्टियों में विनिर्मित हों, और जो अन्यत्र अति-निर्दिष्ट हों अर्थात् जिनमें ऊपर (1) में उल्लिखित वस्तुएं शामिल नहीं हों।	5.50 रु० (केवल पांच रुपए और पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०	5.30 रु० (केवल पांच रुपए और पचास पैसे) प्रति कि० ग्रा०
(iii) एल्युमीनियम की वस्तुएं जो उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित एल्युमीनियम की वस्तुओं से भिन्न हों और जो अन्यथा निर्दिष्ट हों।	3.80 रु० प्रति कि० ग्रा० (केवल तीन रुपए और अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०	3.80 रु० प्रति कि० ग्रा० (केवल तीन रुपए और अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी 1979 के अठारहवें दिन से लागू होगी।

## PUBLIC NOTICE

No. Drawback/PN-3/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India-Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :

For Sub-Serial No. 3803 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
3803	Articles made of Aluminium other than those specified under item 27 of the First Schedule of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).	
(i)	Circular and oval shaped aluminium articles of thickness between 0.56 mm and 1.22 mm.	w.e.f. 18-1-79 Rs. 4.70 per kg. (Rupees four and paise seventy only) per kg.
		w.e.f. 6-3-79 Rs. 3.85 per kg. (Rupees Three and paise eighty five only) per kg.
(ii)	Aluminium articles manufactured from sheets circles and strips, not elsewhere specified i.e. excluding articles mentioned at (i) above.	Rs. 5.50 (Rupees five and paise fifty only) per kg.
		Rs. 5.50 (Rs. five and paise fifty only) per kg.

1	2	3
(iii) Aluminium articles other than those mentioned at (i) and (ii) above not otherwise specified.	w.e.f. 18-1-79 Rs. 3.80 (Rs. three and paise eighty only) per kg.	w.e.f. 6-3-79 Rs. 3.80 (Rs. three and paise eight only) per kg.

This Public Notice will come into force from the 18th day of January, 1979.

## सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिअदायगी/सां०सू० 4/79.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सां०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. स्तम्भ 'प्रतिअदायगी की दर' में उपक्रमांक 2502 की मब सं० (क) (क) (i), (क) (क) (ii), (क) (ख), (क) (ग) और (क) (घ) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- 2.00 रुपए (केवल दो रुपए) प्रति किलोग्राम,
- 0.90 रुपए (केवल नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम,
- 44.05 रुपए (केवल चौत्तारस रुपए और पांच पैसे) प्रति किलोग्राम,
- 52.70 रुपए (केवल बावन रुपए और सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम, और
- 41.30 रुपए (केवल इकतालीस रुपए और तीस पैसे) प्रति किलोग्राम।

2. स्तम्भ 'प्रति अदायगी की दर' में उपक्रमांक 2503 की मब सं० (क) (I) (i), (ख), (क) (I) (i) (ग), (क) (I) (i) (घ), (क) (I) (i) (ङ), (क) (I) (i) (च) और (क) (I) (ii) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

- 1.72 पैसे (केवल एक दशमलव बहत्तर पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम। जिसमें से 34.5 पैसे (केवल चौत्तिस दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम घटाएँ।
- 11.5 पैसे (केवल ग्यारह दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम जिसमें 25 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 4.6 पैसे (केवल चार दशमलव छः पैसे) जोड़ें।
- 57.5 पैसे (केवल सत्तावन दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम जिसमें 35 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 9.2 पैसे (केवल नौ दशमलव दो पैसे) जोड़ें।
- 149.5 पैसे (केवल एक सौ उनचास दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम जिसमें 45 सूत्रांक के अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 16.1 पैसे (केवल सोलह दशमलव एक पैसे) जोड़ें।
- 6.3 पैसे (केवल छः दशमलव तीन पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें से 34.5 पैसे (केवल चौत्तिस दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम घटाएँ, और 21.65 रुपए (केवल इक्कीस रुपए और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
- 3. स्तम्भ "प्रतिअदायगी दर" में उपक्रमांक 2503 की मब सं० (क) (II) (1) (ख); (क) (II) (1) (ग); (क) (II) (1) (घ); (क)

(II) (1) (क); (क) (II) (ब); (क) (II) (II), (क) (III) (II) और (क) (IV) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1.72 पैसे (केवल एक दशमलव बहत्तर पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम, जिसमें से 31.5 पैसे (केवल चौतीस दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम घटाएँ।

11.5 पैसे (केवल ग्यारह दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम, जिसमें 25 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 4.6 पैसे (केवल चार दशमलव छ. पैसे) जोड़ें;

57.5 पैसे (केवल सत्तावन दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम, जिसमें 35 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 9.2 पैसे (केवल नौ दशमलव दो पैसे) जोड़ें;

149.5 पैसे (केवल एक सौ उनचाम दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम, जिसमें 45 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 16.1 पैसे (केवल सोलह दशमलव एक पैसे) जोड़ें।

6.3 पैसे (केवल छ. दशमलव तीन पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें से 34.5 पैसे (केवल चौतीस दशमलव पांच पैसे) प्रति किलोग्राम घटाएँ;

21.65 रुपए (केवल इक्कीस रुपए और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम;

21.65 रुपए (केवल इक्कीस रुपए और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम; और

28.65 रुपए (केवल अठ्ठाईस रुपए और पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

4. स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" में उपक्रमांक 2503 की मद सं० (ग) (I) (क); (ग) (I) (ख), (ग) (I) (ग) (1); (ग) (I) (ग) (ii); और (ग) (I) (घ) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

45.95 रु० (केवल पैतालीस रुपए और पंचानव पैसे) प्रति किलोग्राम;

43.00 रु० (केवल पैतालीस रुपए) प्रति किलोग्राम;

2.10 रु० (केवल दो रुपए और दस पैसे) प्रति किलोग्राम;

0.92 रु० (केवल नानवे पैसे) प्रति किलोग्राम; और

54.95 रु० (केवल चौबहान रुपए और पंचानव पैसे) प्रति किलोग्राम।

5. स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" में मद सं० 2510 (ख); 2511 (क) और 2511 (ख) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5.60 रु० (केवल पांच रुपए और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम; शुष्क; और

5.00 रु० (केवल पांच रुपए) प्रति किलोग्राम।

6. स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" में उपक्रमांक 2513 की मद (1) (क) (i), (I) (क) (ii), (I) (क) (iii), I (1) (क) (iv), (I) (क) (v), (I) (ख) (i), (I) (ख) (ii), (I) (ख) (iii), (I) (ख) (iv), (I) (ख) (v), (I) (ख) (vi), (I) (ख) (vii), (I) (ग) (i), (I) (ग) (ii), (I) (ग) (iii), (I) (ग) (iv), (I) (ग) (v), (I) (ग) (vi), (I) (ग) (vii), (I) (घ) (i), (I) (घ) (ii), (I) (घ) (iii), (I) (घ) (iv), (I) (घ) (v), (I) (घ) (vi) और (I) (घ) (vii) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

92.00 रु० (केवल बानवे रुपये) प्रति कि०ग्रा०

102.85 रु० (केवल एक सौ दो रुपये पचासी पैसे) प्रति कि०ग्रा०

75.30 रु० (केवल पचहत्तर रुपये तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

64.70 रु० (केवल चौंसठ रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि०ग्रा०

17.90 रु० (केवल सत्तर रुपये नब्बे पैसे) प्रति कि०ग्रा०

70.30 रु० (केवल गत्तर रुपये तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

61.95 रु० (केवल इकसठ रुपये पंचानव पैसे) प्रति कि०ग्रा०

53.55 रु० (केवल तिरपन रुपये पचपन पैसे) प्रति कि०ग्रा०

45.20 रु० (केवल पैतालीस रुपये बीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

23.45 रु० (केवल तेईस रुपये पैतालीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

28.60 रुपये (केवल अठ्ठाईस रुपये साठ पैसे) प्रति कि०ग्रा०

12.65 रु० (केवल बारह रुपये पैंसठ पैसे) प्रति कि०ग्रा०

21.25 रु० (केवल इक्कीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

14.10 रु० (केवल चौबहान रुपये दस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

10.30 रु० (केवल दस रुपये तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

8.70 रु० (केवल आठ रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि०ग्रा०

7.60 रु० (केवल सात रुपये साठ पैसे) प्रति कि०ग्रा०

5.35 रु० (केवल पांच रुपये पैंतीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

3.80 रु० (केवल तीन रुपये अस्सी पैसे) प्रति कि०ग्रा०

14.85 रु० (केवल चौबहान रुपये पचासी पैसे) प्रति कि०ग्रा०

11.15 रु० (केवल ग्यारह रुपये गंद्रह पैसे) प्रति कि०ग्रा०

8.38 रु० (केवल आठ रुपये तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

5.70 रु० (केवल पांच रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि०ग्रा०

5.30 रु० (केवल पांच रुपये तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

4.35 रु० (केवल चार रुपये पैंतीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

3.00 रु० (केवल तीन रुपये) प्रति कि०ग्रा०

7. स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" उपक्रमांक 2513 की मद (2) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

उपर्युक्त उपक्रमांक 2513 (1) (क) और (ख) के अन्तर्गत यथास्थिति किलामेंट सूत की यथानिर्दिष्ट दर जमा 5.75 रुपये (केवल पांच रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति कि०ग्रा०

8. स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" में उपक्रमांक 2619 की मद (क) (i) (1), (क) (i) (2), (क) (i) (3), (क) (i) (4), (क) (i) (5), (क) (ii) (1), (क) (ii) (2), (क) (ii) (3), (क) (ii) (4), (क) (ii) (5) और (क) (ii) (6) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

92.00 रु० (केवल बानवे रुपये) प्रति कि०ग्रा०

83.70 रु० (केवल निरासी रुपये सत्तर पैसे) प्रति कि०ग्रा०

75.30 रु० (केवल पचहत्तर रुपये तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

58.60 रु० (केवल अठ्ठावन रुपये साठ पैसे) प्रति कि०ग्रा०

17.90 रु० (केवल सत्तर रुपये नब्बे पैसे) प्रति कि०ग्रा०

70.30 रु० (केवल सत्तर रुपये तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

61.95 रु० (केवल इकसठ रुपये पंचानव पैसे) प्रति कि०ग्रा०

53.55 रु० (केवल तिरपन रुपये पचपन पैसे) प्रति कि०ग्रा०

45.20 रु० (केवल पैतालीस रुपये बीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

23.45 रु० (केवल तेईस रुपये पैतालीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

7.45 रु० (केवल सात रुपये पैतालीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०

9. स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" में उपक्रमांक 2621 की मद (ख) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

5.60 रु० (केवल पांच रुपये साठ पैसे) प्रति कि०ग्रा०

10. स्तम्भ "प्रतिप्रदायगी की दर" में उपक्रमांक 2719 की मद (ख) के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

उपरोक्त उपक्रमांक (क) (i) से (iii) तक के अन्तर्गत यथास्थिति किलामेंट सूत अन्तर्बस्तु की यथानिर्दिष्ट दर जमा 5.75 रुपये (केवल पाँच रुपये पञ्चहत्तर पैसे) प्रति कि०ग्रा० ।

यह सार्वजनिक सूचना जनवरी, 1979 के चौथे दिन से लागू होगी ।

महेश कुमार, सचिव

## PUBLIC NOTICE

**No. Drawback/PN-4/79.**— Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. N. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :

1. In the Column 'Rate of drawback' against items (A)(a)(i), (A) (a)(ii), (A)(b), (A)(c) and (A)(d) of sub-serial No. 2502, for the existing entries the following shall be substituted, namely:—

Rs. 2.00 (Rupees two only) per kg., Rs. 0.90 (Paise ninety only) per kg., Rs. 44.05 (Rupees forty four and paise five only) per kg., Rs. 52.70 (Rupees fifty two and paise seventy only) per kg. and Rs. 41.30 (Rupees forty one and paise thirty only) per kg. respectively.

2. In the Column 'Rate of drawback' against items (A)(I) (i)(b), (A)(I)(i)(c), (A)(I) (i)(d), (A)(I)(i)(e), (A)(I)(i)(f) and (A)(I) (ii) of sub-serial No. 2503, for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

Paise 1.72 (Paise one point seventy two only) per count per kg. LESS Paise 34.5 (Paise thirty four point five only) per kg; Paise 11.55 (Paise eleven point five only) per kg. PLUS Paise 4.6 (Paise four point six only) per count per kg. exceeding 25 counts;

Paise 57.5 (Paise fifty seven point five only) per kg. PLUS Paise 9.2 (Paise nine point two only) per count per kg. exceeding 35 counts;

Paise 149.5 (Paise one hundred forty nine point five only) per kg. PLUS Paise 16.1 (Paise sixteen point one only) per count per kg. exceeding 45 counts.

Paise 6.3 (Paise six point three only) per count per kg. LESS Paise 34.5 (Paise thirty four point five only) per kg., and

Rs. 21.65 (Rupees twenty one and paise sixty five only) per kg. respectively.

3. In the Column 'Rate of drawback' against item (A)(II)(i)(b); (A)(II)(i)(c); (A)(II)(i)(d); (A)(II)(i)(e); (A)(II) (i)(f); (A)(II) (ii), (A)(II)(ii) and (A) (IV) of sub-serial No. 2503 for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

Paise 1.72 (Paise one point seventy two only) per count per kg. LESS Paise 34.5 (Paise thirty four point five only) per kg.

Paise 11.5 (Paise eleven point five only) per kg. PLUS Paise 4.6 (Paise four point six only) per count per kg. exceeding 25 counts;

Paise 57.5 (Paise fifty seven point five only) per kg. PLUS Paise 9.2 (Paise nine point two only) per count per kg. exceeding 35 counts.

Paise 149.5 (Paise one hundred forty nine point five only) per kg. PLUS Paise 16.1 (Paise sixteen point one only) per count per kg. exceeding 45 counts;

Paise 6.3 (Paise six point three only) per count per kg. LESS Paise 34.5 (Paise thirty four point five only) per kg.

Rs. 21.65 (Rupees twenty one and sixty five only) per kg.,

Rs. 21.65 (Rupees twenty one and paise sixty five only) per kg., and

Rs. 28.65 (Rupees twenty eight and paise sixty five only) per kg. respectively

4. In Column 'Rate of drawback' against item (C)(I)(a); (C)(i)(b), (C)(i)(c)(i), (C)(i)(c)(ii) and (C)(i)(d) of sub-serial No. 2503 for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

Rs. 45.95 (Rupees forty five and paise ninety five only) per kg.,

Rs. 43.00 (Rupees forty three only) per kg.,

Rs. 2.10 (Rupees two and paise ten only) per kg.,

Rs. 0.92 (Paise ninety two only) per kg., and

Rs. 54.95 (Rupees fifty four and paise ninety five only) per kg. respectively.

5. In the Column 'Rate of drawback' against items 2510(b); 2511(a) and 2511(b) for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

Rs. 5.60 (Rupees five and paise ninety only) per kg., NIL and

Rs. 5.00 (Rupees five only) per kg. respectively.

6. In the Column 'Rate of drawback' against items (1)(A)(i), (1)(A)(ii), (1)(A)(iii), (1)(A)(iv), (1)(A)(v), (1)(B)(i), (1)(B)(ii), (1)(B)(iii), (1)(B)(iv), (1)(B)(v), (1)(B)(vi), (1)(B)(vii), (1)(C)(i), (1)(C)(ii), (1)(C)(iii), (1)(C)(iv), (1)(C)(v), (1)(C)(vi), (1)(C)(vii), (1)(D)(i), (1)(D)(ii), (1)(D)(iii), (1)(D)(iv), (1)(D)(v), (1)(D)(vi), and (1)(D)(vii) of sub-serial number 2513 for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

Rs. 92.00 (Rupees ninety two only) per kg.

Rs. 102.85 (Rupees one hundred two and paise eighty five only) per kg.

Rs. 75.30 (Rupees seventy five and paise thirty only) per kg.

Rs. 64.70 (Rupees sixty four and paise seventy only) per kg.

Rs. 17.90 (Rupees seventeen and paise ninety only) per kg.

Rs. 70.30 (Rupees seventy and paise thirty only) per kg.

Rs. 61.95 (Rupees sixty one and paise ninety five only) per kg.

Rs. 53.55 (Rupees fifty three and paise fifty five only) per kg.

Rs. 45.20 (Rupees forty five and paise twenty only) per kg.

Rs. 23.45 (Rupees twenty three and paise forty five only) per kg.

Rs. 28.60 (Rupees twenty eight and paise sixty only) per kg.

Rs. 12.65 (Rupees twelve and paise sixty five only) per kg.

Rs. 21.25 (Rupees twenty one and paise twenty five only) per kg.

Rs. 14.10 (Rupees fourteen and paise ten only) per kg.  
 Rs. 10.30 (Rupees ten and paise thirty only) per kg.  
 Rs. 8.70 (Rupees eight and paise seventy only) per kg.  
 Rs. 7.60 (Rupees seven and paise sixty only) per kg.  
 Rs. 5.35 (Rupees five and paise thirty five only) per kg.  
 Rs. 3.80 (Rupees three and paise eighty only) per kg.  
 Rs. 14.85 (Rupees fourteen and paise eighty five only) per kg.  
 Rs. 11.15 (Rupees eleven and paise fifteen only) per kg.  
 Rs. 8.30 (Rupees eight and paise thirty only) per kg.  
 Rs. 5.70 (Rupees five and paise seventy only) per kg.  
 Rs. 5.30 (Rupees five and paise thirty only) per kg.  
 Rs. 4.35 (Rupees four and paise thirty five only) per kg.  
 Rs. 3.00 (Rupees three only) per kg. respectively.

7. In the Column 'Rate of drawback' against item (2) of sub-serial No. 2513 for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

'The rate of Filament yarn as specified under sub-serial No. 2513(1)(A) and (B) above as the case may be PLUS Rs. 5.75 (Rupees five and paise seventy five only) per kg.'

8. In the Column 'Rate of drawback' against items (A)(i)(1), (A)(i)(2), (A)(i)(3), (A)(i)(4), (A)(i)(5), (A)(ii)(1), (A)(ii)(2), (A)(ii)(3), (A)(ii)(4), (A)(ii)(5) and (A)(ii)(6) of sub-serial No. 2619, for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

Rs. 92.00 (Rupees ninety two only) per kg.  
 Rs. 83.70 (Rupees eighty three and paise seventy only) per kg.  
 Rs. 75.30 (Rupees seventy five and paise thirty only) per kg.

Rs. 58.60 (Rupees fifty eight and paise sixty only) per kg.  
 Rs. 17.90 (Rupees seventeen and paise ninety only) per kg.  
 Rs. 70.30 (Rupees seventy and paise thirty only) per kg.  
 Rs. 61.95 (Rupees sixty one and paise ninety five only) per kg.  
 Rs. 53.55 (Rupees fifty three and paise fifty five only) per kg.  
 Rs. 45.20 (Rupees forty five and paise twenty only) per kg.  
 Rs. 23.45 (Rupees twenty three and paise forty five only) per kg.  
 Rs. 7.45 (Rupees seven and paise forty five only) per kg. respectively.

9. In the Column 'Rate of drawback' against item (b) of sub-serial No. 2621, for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

Rs. 5.60 (Rupees five and paise sixty only) per kg.

10. In the Column 'Rate of drawback' against item (B) of sub-serial No. 2719 for the existing entries the following shall be substituted, namely :—

'The rate of filament yarn content as specified at sub-serial No. 2619(A)(i) to (iii) above, as the case may be PLUS Rs. 5.75 (Rupees five and paise seventy five only) per kg.'

This Public Notice shall come into force with effect from the fourth day of January, 1979.

MAHESH KUMAR, Under Secy.